



Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel.: +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200 Fax: +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail: iglho@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com

25th November, 2023

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051

Scrip Code: 500201 Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Submission of Newspaper clippings regarding Notice of the Postal Ballot and Intimation of Remote E-voting facility

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement w.r.t. completion of dispatch of the Notice of the Postal Ballot and Intimation of Remote E-voting facility through e-mail to the eligible shareholders of the Company in the following newspapers published on 25th November, 2023:

- 1. Financial Express (All Editions) in English; and
- 2. Uttar Ujala (Nainital Edition) in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,

For India Glycols Limited

Ankur Jain Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above.

CIN: L24111UR1983PLC009097

Type of

auction

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower! Guarantor on the dates mentioned hereunder calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co- Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account. The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Name of address of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor Mr. Ukar Singh S/o Jalam Singh, House No. 48, All that Part & Rajputo Ka Bas, Guda Narkan, Gura Narkhan, Sonai Parcel of Residential Rajasthan-306401, Also At: House no. 49, Rajputo Ka Gordhan Singh, North: Road & Door, South: Ratan Singh Bas, Guda Narkan, Gura Narkhan, Sonai Manji, Pali, Rajasthan-306401, In Loan Account No. 2235210040000054

Description of the Date of Demand Notice and Amount as per Immovable property Date of possession demand notice Date of Demand Notice: 24.08.2023 | Rs. 2,20,031/-Date of possession: 22.11.2023 Manji, Pali, Rajasthan-306401, Mrs. Pista Kanwar property admeasuring 1838.25 Sq. Ft, situated at Patta No. 18.08.2023 W/o Ukar Singh, House No. 48, Rajputo Ka Bas, 001, Gram Guda Narkan, Tehsil & Distt Pali Rajasthan which is and interest Guda Narkan, Gura Narkhan, Sonai Manji, Pali, bounded as follows: Boundaries: East: Madan Singh, West: thereon.

> Place: Pali Authorised Officer

Date: 25-11-2023

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B - 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Enter a hotter life Chennal-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13[2] OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

You, the under mentioned Borrower / Mortgagor is hereby informed that the company has initiated proceedings against you under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and that the Notice under 13 (2) of the Act sent to you by Registered Post Ack. Due for Borrower's has been returned undelivered. Hence, you are hereby called upon to take notice and pay the outstanding loan amount mentioned against the said account with interest accruing there from within 60 days from the date of this publication, failing which the company will proceed against you by exercising its right under Sub-Sec (4) of Section 13 of the Act by enforcing the below mentioned security to realize its dues with interests and costs. It is needles to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to the company

Name and Address of the Applicant/s	Loan Amount	Date of Demand Notice & Amount Outstanding	Description of the property/ Secured Asset
Loan Account No. HEO1ELD00000000655 & HEO1ELD00000020251 1.LATE AJAY PAL SINGH (REP. BY ALL SURVIVING LEGAL HEIRS) (Applicant) 2. SANJU D (Co_Applicant) 3. VASU CHOUDHARY (Co_Applicant) 4.M/S CHET RAM DHARAMPAL(THROUGH ITS PROPRIETOF SINGH) (Co Applicant) All are resides at: WZ-1573, FIRST FLOOR, VILLAGE TIHAR, TILAK N. DELHI-110018 Also at: SHOP NO.31, CH. CHET RAM SUBZI MANDI, KESHOPUR, DEL Also at: H.NO.WZ-159, GALI NO.3, TIHAR VILLAGE, TILAK N.AGAR, N. 110018	AGAR, NEW	16/11/2023 Rs. 25964989.00 (Rupees Two Crore Fifty Nine Lakhs Sixty Four Thousand Nine Hundred & Eighty Nine Only) as on 16/11/2023	Built Up Plot No.Wz- 1573 Land Measuring 300Sq.Yds. Out Of khasra No.1573, Situated In The Area Of Village Tihar, New Delhi, Which Is Bounded As Under: East-Road, West- Others Property, North Road, South Others

APM TERMINALS

Date: 25/11/2023 Place DELHI

GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED

Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Regd. Office: Pipavav Port, At Post Rampara-2 via Rajula, Dist. Amreli Guiarat 365 560 CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413 Website: www.pipavav.com Email: investorrelationinppv@apmterminals.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') that Gujarat Pipavav Port Limited ('the Company'), has on 23rd November 2023 completed sending emails through KFin Technologies Limited (the Registrar and Share Transfer Agent/ KFintech) along with the details of Login ID and Password to the members whose email id is registered with the Depositories or with the Company, for seeking Shareholders' approval for the following resolution: Appointment of Mr. Steven Coert Deloor (DIN: 10337166) as Director of the Company

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time read with General Circular no. 09/ 2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the resolution is proposed to be passed by way of Remote E-voting only by the Members of the Company. The Ministry of Corporate Affairs and SEBI vide circulars mentioned above have until September 30, 2024, dispensed with the requirement for issuing the hard copies of documents for passing of Ordinary and Special Resolutions by the Members.

Pursuant to the aforesaid Circulars, the Company has sent Postal Ballot Notice in Electronic form only and hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot. Members who have not registered their email address and in consequence the e-voting notice could not be serviced are requested to submit their details in Form ISR 1. The form can be obtained from https://ris.kfintech.com/ clientservices/isc/default.aspx

The said notice of Postal Ballot is also placed on the website of the Company www.pipavav.com

The Board of the Directors of the Company has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar (Membership No. 5171) and in his absence Mr. Jayesh M. Shah, (Membership No. 5637) Partners, M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer, after completion of scrutiny of the votes received, will submit his report in writing to the Company. The results of the said voting will be declared in accordance with the provisions of Section 110 of the Act read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 by 26th December 2023. The results of Postal Ballot will be displayed on the Company's website www.pipavav.com and will be submitted to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE), where the Equity Shares of the Company are listed.

As required under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015 and Rule 22 of the Rules, the Company has engaged the services of KFin Technologies Limited to provide Remote E-voting facility to the Members of the Company.

The voting rights of Members shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member(s) on 21st November 2023 (cut-off date) and the notice has been sent to Members by email (to those members who have registered their email ids), whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners on that date.

Members are requested to note that they can cast their vote online commencing from 9.00 am on 26th November 2023, till 5.00 p.m. on 25th December 2023. Please note that the e-voting module will be disabled for voting thereafter.

Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting are: Ms C. Shobha Anand, Dy Vice President, Toll Free No. 1800 309 4001 at KFin Technologies Limited [Unit: Gujarat Pipavav Port Limited] Selenium Building B, Plot No. 31& 32, Gachibowli. Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Telangana State, India.

Place: Mumbai Date: 23rd November 2023

CIN: U67190MH1993PLC073154

For and on behalf of the Board Manish Agnihotri Company Secretary ACS No. 12045

TAURUS

Mutual Fund

PUBLIC NOTICE

We M/s Kayaar Nutri Foods LLP hereby announce that partners has decided to shift its registered office from Shed No.1 1st F Masood Pur Dairy Farm Vasant Kunj New Delhi-110070 to Khasra No. 1170, Behrampur Road, HSIDC, Phase - VII, Gurugram, Haryana, 122004.

Anyone having an objection should let us know.

KAYAAR NUTRI FOOD LLP M.: 9582818178, 9871692119 E-Mail: rajeevsahnismo@gmail.com

TAMILNADU INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED No.19-A, Rukmini Lakshmipathi Road, Egmore, Chennai - 600 008.

NOTICE NO: TIDCO/EoI-03/2023

Electromagnetic Compatability (EMI / EMC) and Communication at Sipcot Industrial Park, Vallam Vadagal, Kanchipuram District at a project cost of about Rs.120 crores as

TIDCO invites interested parties who are involved in electronics testing / design / manufacturing to be equity partners in the centre with an investment of atleast Rs.5 crores to submit their response to the Eol.

Interested firms can download the EOI from the website https://tidco.com &

vedanta

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Dunlicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive Nos.		o u		
No.				From	То	Certificate No.		
1	K S Narayanan	SGL106609	800	868643788	868644587	838424		
2	Shah Sanjay Pravinchandra	SGL125966	200	866061116	866061315	1101670		
3	Neeta Ashok Sharma	COL 400400	108483 200	866265440	866265639	833391		
	Mr. Ashok Manohar Sharma	SGL 100403						
4	Mr. Dau Lal Bihani	D 003180 4080	D 000400 4	4000	392637971	392640010	000004	
	Wir. Dau Lai Binani D 0		786258171	786260210	820334			

Place: New Delhi Date: November 25, 2023 **IFCI FACTORS LIMITED**

Tel: +91-11-6173 2005, Email ID: smitkumar@ficifactors.com Website: www.lfcifactors.com, CRI: U748990L1995G01074649

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Twenty-Eighth (28") Annual General Meeting of the Members of IFCI Factors Limited will be held on Monday, the 18th day of December, 2023 at 12 noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Video Means (OAVM) in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs in this regard. The Annual Report of the Company interalia including the AGM Notice, Financial Statement for the FY 2022-23, along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, has been sent to those Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Company/R&TA/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ifcifactors.com. Members are requested to register/update their e-mail id with the Company at email address smitkumar@ifcifactors.com for receiving various documents including Annual Reports, Notices or other Communications from the Company in electronic Mode.

For IFCI Factors Limited Date: November 25, 2023 (Smit Kumar) Place: New Delhi Company Secretary PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following members of the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX) have requested for the surrender of their membership rights of the NCDEX.

Sr. No.	TMID	SEBI Registration Number	Name of Member	Date of surrender application	Member's Correspondence Address	from the date of Notification
1	1030	NZ000209725	Hensex Securities Private Limited	24-Apr-23	Hensex Tower, 7th, Bhagat Ki Kothi Extension, Nh-65, Pali Road, Jodhpur - 342005	2 Months
2	921	INZ000259437	Kalpataru Multiplier Limited	3-Mar-23	Kalpataru House, 18, Itwara, Bhopal-462001	2 Months
3	996	INZ000028025	Sarvpriya Commodities	29-Mar-23	SCF No.8, Ekta Vihar, Near New Grain Market, Totapuri Road, Dist – Sangrur, Dhuri-148024	2 Months
4	1064	INZ000015731	Wealth Discovery Commodities Pvt Ltd	25-Jul-23	1206, Kailash Building, K.G Marg, Connaught Paloe, New Delhi-110001	1 Month

General public is requested to take note of the surrender of the above member(s) and not to trade/clear with the said member(s) in future.

The registered constituent (s) of the aforesaid member(s) who have undertaken any trades/clearing through these member(s) are hereby advised to lodge the claims, if any against the said member(s) within the abovementioned claim period from the date of this notification, failing which, it shall be presumed that there is no claim against the aforesaid member(s) and that all claims against the member(s shall be deemed to be waived off. Adjudication of the claim shall be at the sole discretion of the Exchange and/or upon the regulatory directives, if any

The constituent(s) may write with all the relevant papers to Ms. Smita Chaudhary, Senior Vice President, Investor Services Centre (ISC) department, National Commodity & Derivatives Exchange Ltd, Ackurti Corporate Park, LBS Marg, KanjurMarg (W), Mumbai 400 078 or email at ig@ncdex.com

Date: 25.11.2023

NCDEX

REQUEST FOR QUALIFICATION FOR UNDERTAKING AIRPORT SERVICES AT NAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT Corrigendum No. 1

Navi Mumbai International Airport Private Limited ("NMIAL") has been granted the right to develop, operate and maintain the Navi Mumbai International Airport ("NMIA") on DBFOT basis. As a part of project development at NMIA, NMIAL proposes to award the rights to render various airport services, including but not limited to duty-free retail, duty paid retail & services, food & beverage services, car parking, advertisements and landside development at Navi Mumbai International Airport through a competitive tender process.

In continuation to the newspaper advertisement dated 5 June 2023, the last date of submission of Applications in response to RFQ for Airport Services is being extended on account of amendment in the scope of services.

Interested parties can participate in the process by submitting required documents and the requisite fee as specified in the Tender Notice available on the e-Portal: https://nmiairport.abcprocure.com.

Applicants who have already submitted the requisite fees and their Application for qualification as per

notice published on 05 June 2023, should not respond to this advertisement.

For further details and instructions, please visit the E-tenders section of our website: www.nmiairport.co.in

Note: NMIAL reserves the right to cancel tender

process at any time without prior notice or without assigning any reason whatsoever.

Contact detail: siddharth.doshi@in.ey.com

100 ne-+91-4428554479,28554480 | Fax:+91-4428553729, Website: https://tidco.co

Date: 24.11.2023

TIDCO plans to establish a test centre for Electromagnetic Interference

a JV with private industry.

www.tndefensecorridor.in. DIPR/1340/Display/2023

Managing Director, TIDCO

VEDANTA LIMITED CIN: L13209MH1965PLC291394

Phone No.: +91-22 6643 4500; Fax: +91-22 6643 4530 Website: www.vedantalimited.com; Email ID: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE

Prerna Halwasiya Company Secretary & Compliance Officer



State/UT

No



Tenure

(in years)

AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for an aggregate amount of ₹35,300 crore (Face Value).

Amount to Additional

be raised borrowing

(₹ cr) (Greenshoe)

		option (₹ cr)		
Andhra Pradesh	1,000	<u> </u>	12	Yield based
Chhattisgarh	1,000	- T	8	Yield based
Goa	100		10	Yield based
Gujarat	1,000	8	3	Yield based
	1,000	-	6	Yield based
Haryana	500	- 5	10	Yield based
	1,000	- 2	12	Yield based
Jammu and Kashmir	600	-	20	Yield based
Karnataka	3,000	2	11	Yield based
Kerala	1,500	500	20	Yield based
Madhya Pradesh	2,000	-	14	Yield based
Maharashtra	2,000	*	Reissue of 7.70% Maharashtra SGS 2033 issued on November 15, 2023	Price based
	2,000	*	Reissue of 7.70% Maharashtra SGS 2034 issued on November 15, 2023	Price based
Manipur	100		15	Yield based
Punjab	1,000	500	13	Yield based
	1,000	400	14	Yield based
Rajasthan	1,000	8	10	Yield based
	1,000	21	12	Yield based
	1,500	(7)	26	Yield based
Tamil Nadu	2,000	¥.	7	Yield based
	2,000	÷	Reissue of 6.63% Tamil Nadu SDL 2035 issued on December 23, 2020	Price Baser
Telangana	500		12	Yield based
Uttar Pradesh	2,000	-	10	Yield based
NAV A PA		- 2		Yield based
West Bengal				Yield based
Total	The second secon		20	Yield based
	Chhattisgarh Goa Gujarat Haryana Jammu and Kashmir Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra Manipur Punjab Rajasthan Tamil Nadu	Chhattisgarh 1,000 Goa 100 Gujarat 1,000 Haryana 500 1,000 1,000 Jammu and Kashmir 600 Karnataka 3,000 Kerala 1,500 Madhya Pradesh 2,000 Manipur 100 Punjab 1,000 Rajasthan 1,000 1,500 1,500 Tamil Nadu 2,000 West Bengal 2,000 West Bengal 2,000 2,500	Andhra Pradesh 1,000 - Chhattisgarh 1,000 - Goa 100 - Gujarat 1,000 - Haryana 500 - Jammu and Kashmir 600 - Karnataka 3,000 - Kerala 1,500 500 Madhya Pradesh 2,000 - Maharashtra 2,000 - Manipur 100 - Punjab 1,000 500 1,000 400 Rajasthan 1,000 - 1,500 - Tamil Nadu 2,000 - Telangana 500 - Uttar Pradesh 2,000 - West Bengal 2,000 - West Bengal 2,000 - West Bengal 2,000 -	Andhra Pradesh

in multiple-price format on November 28, 2023 (Tuesday), Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (https://rbiretalldirect.org.in). For further details please refer to RBI press release dated November 23, 2023 (Thursday) on RBI website www.rbi.org.in.

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

INDIA GLYCOLS LIMITED Regd Off.- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distl. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269536 E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com CIN: L24111UR1983PLC009097 NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to and in compliance with the provisions of Section

108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circulars No. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021 3/2022, 11/2022 and 9/2023 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020 28th September, 2020, 31th December, 2020, 23th June, 2021, 8th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), approval of members of India Glycols Limited ("the Company") is being sought by way of Ordinary Resolution through Postal Ballot through e-voting process only "Remote e-voting") for appointment of Shri Alok Singhal (DIN: 10359043) as a Director

Postal Ballot Notice ("Notice") dated 3rd November, 2023 alongwith explanatory statement on 24th November, 2023 only through electronic mode to all those Members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") hereinafter, called "the Depositories") as on Friday, the 17th November, 2023 ("the cut-off date") and who have registered their email addresses with the Company/Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") or their Depositories. In terms of the requirements specified in the aforesaid MCA Circulars, the Company has sent the Notice in electronic form only. The hard copies of the Notice alongwith Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelop has not been sent for this Postal Ballot. The Notice is available on the Company's website at website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the website of Stock Exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com Members, who have not received the Notice, may download it from the Company's website or write to the Company Secretary at compliance officer@indiaglycols.com

Further, pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Act and applicable rules and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility to cast their votes through Remote e-voting facility in respect of the business set out in the Notice and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. All the members are informed that (a) the Remote e-voting shall commence on Sunday, the 26th November, 2023 at 9:00 A.M. (IST); (b) the Remote e-voting shall end on Monday, the 25th December, 2023 at 5:00 P.M. (IST); (c) the cut-off date for reckoning the rights of Members for Remote e-voting is Friday, the 17th November, 2023; (d) the Remote e-voting shall not be allowed after 5:00 P.M. (IST) on Monday, the 25th December, 2023 and the Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter; (e) person whose name is recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e Friday, the 17th November, 2023 shall only be entitled to avail the facility of Remote e-voting; (f) the instruction on the process of Remote e-voting, including the manner in which members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through Remote e-voting, are provided in the Notice; and (g) in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the 'download' section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at the designated e-mail ID: evoting@nsdl.com. Members may also e-mail to the Company Secretary at compliance officer@indiaglycols.com or send a letter at the Head office at

Depositories, may get the same registered by following below instruction, in order to obtain Postal Ballot Notice:

Share Transfer Agent Limited ("the RTA") at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 or email at admin@rncsregistrars.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front & back).

Demat Holding

Place: Noida, U.P.

Date : 24-11-2023

to register/update their email addresses by following the process mentioned above under-Physical Holding and send 16 digit DPID & Client ID in place of Folio No. along with scanned copy of self-attested Client Master copy or consolidated Demat Account Statement.

For permanent registration of e-mail address, Members holding shares in physical form should furnish details to RTA in prescribed forms. Members holding shares in electronic form should approach their Depository Participants. SEBI vide its Master Circular No SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 dated

17th May, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/158 dated 26th September, 2023 has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination, by holders of physical securities on or before 31st December, 2023. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN, KYC details and Nomination details by sending the prescribed forms to RTA at F-65, 1" Floor, Okhla Industrial Area, Phase I New Delhi - 110020 or email at admin@mcsregistrars.com. The requisite forms are available on the Company's website at www.indiaglycols.com under Investor Relations Section. Members holding shares in electronic form are requested to verify and update any change/ updation in their KYC details/ Bank mandate(s) or details of nomination immediately to their respective Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company has appointed Shri Ashish Saxena (C.P. No.7096) of Ashish Saxena & Co., Company Secretaries, Ghaziabad as the scrutinizer to scrutinize the Remote e-voting process in fair and transparent manner.

The result of voting conducted through Postal Ballot (through Remote e-voting process) will be declared within two working days from the conclusion of Remote E-voting period. The said result alongwith Scrutinizer's Report will be available on the Company's website at www.indiaglycols.com, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the website of Stock Exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Resolution passed by the Members in this Postal Ballot process through Remote e-voting

shall be deemed to have been passed as if the same have been passed at a General Meeting of the Members. The Resolution, if passed by requisite majority of Members, will be deemed to be passed on the last date of Remote e-voting. For India Glycols Limited

> Ankur Jain Company Secretary

financialexp.epam.in

('KIMs') OF ALL SCHEMES OF TAURUS MUTUALFUND ('THE MUTUAL FUND') Change in Base Total Expense Ratio of Scheme(s) of Taurus Mutual Fund

TAURUS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Head Office & Regd Office: 3rd Floor, 301-304, Chandravillas Co-op

Caves Road, Andheri-East, Mumbai - 400 093 Tel: 022 - 6624 2700

SAI, SIDs and KIMs of the schemes of Taurus Mutual Fund along

Email: customercare@taurusmutualfund.com A copy of

with application form may be obtained from Fund's

Website: www.taurusmutualfund.com

Premises Society Ltd., AML Centre 2, 8 Mahal Industrial Estate, Off. Mahakali

NOTICE IS HEREBY GIVEN and it is proposed to change the base Total Expense Ratio ("TER") (i.e. TER excluding additional expenses provided in Regulation 52(6A)(b) and 52(6A)(c) of SEBI

(Mutual Funds) Regulations, 1996 for the following scheme offered by Taurus Mutual Fund ("the Fund") w.e.f Friday, 01 December 2023. Scheme Name(s) **BASE TER**

Direct Plan - Existing (%) | Direct Plan - Proposed (%) Taurus ELSS Tax Saver Fund 1.64 1.68 (Formerly known as Taurus Tax Shield) Taurus Discovery (Midcap) Fund 1.96 1.89 1.15 **Taurus Ethical Fund** 1.19 Taurus Banking and Financial 1.52 1.56 Services Fund Taurus Nifty 50 Index Fund 0.86 0.97

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ('SAI').

SCHEME INFORMATION DOCUMENTS ('SIDs') AND KEY INFORMATION MEMORANDUM

Investors may also visit our website www.taurusmutualfund.com for disclosure(s) relating to TER appearing under sub-section titled "Total Expense Ratio of Mutual Fund Schemes" appearing under Section "Statutory Disclosures". The said information about change in base TER is provided in accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/18 dated February 05, 2018 for "Total Expense Ratio - change and disclosure".

(Investment Manager for Taurus Mutual Fund) Place: Mumbai Date: November 24, 2023 Notice cum Addendum No. 23/2023-24 **Authorised Signatory**

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

For Taurus Asset Management Company Ltd.



the company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on 26th day of September, 2023 to enable the Company to change its Registered office from "NCT of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected

"FORM NO. INC-26"

[PURSUANT TO RULE 30 OF THE COMPANIES

(INCORPORATION) RULES 2014]

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013,

SECTION 13(4) OF COMPANIES ACT 2013 READ WITH RULE 30(5) (A) OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014

AND IN THE MATTER OF

EMERALD HOMEDEVELOPERS PRIVATE LIMITED

A COMPANY INCORPORATED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956 HAVING ITS

REGISTERED OFFICE AT HOUSE NO.-210, GROUND FLOOR, BLOCK E-3 MOLAR BAND EXTENSION BADARPUR, SOUTH DELHI, NEW DELHI, DELHI, INDIA, 110044.

NOTICE is hereby given to the General Public

that the Company proposes to make application

to the Regional Director under section 13 of the

mpanies Act. 2013 seeking confirmation o

Alteration of the Memorandum of Association of

the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objection supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, New Delhi at B-2 Wing, 2rd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO omplex, New Delhi-110003, within fourteen tays from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its gistered office at the address mentioned below: # House No. 210, Ground Floor, Block E-3

Molar Band Extension, Badarpur, South Delhi, New Delhi-110044, For & On Behalf Of Emerald Homedevelopers Private Limited Bharat Pal Singh DIN: 00699473

House No. 411, Sector-17

Faridabad, Haryana-121002 Form No. 3 [See Regulation -15(1)(a)] /16(3) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd and 4th Floor also) Case No. OA/767/2021 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the

> Exh. No. 20109 Canara Bank M/s Kalra Industries

1) M/s Kalra Industries

Faridabad, Haryana,

Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

D/W/S/o Bijender Kumar, Registered office At Plot No. 7 Gali No. 3 Behind Mile Stone Public School Saran Industrial Area NIT Dist. Faridabad, Haryana Through Its Proprietor Mr. Bijender Kumar, Faridabad, Haryana., 2) Bijender Kumar, S/o Sh. Narayan Dass, H No. 399 Sector 23 Faridabad, Haryana., 3) Pooja Kalra, W/o Bijender Kumar, H No. 399 Sector 23

Whereas, OA/767/2021 was listed before Hon'ble

Presiding Officer/Registrar on 28/08/2023. Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs.1,17,77,462.63 (Rupees One Crore Seventeen Lakh Seventy Seven Thousand Four Hundred Sixty Two and Sixty Three paisa only) (application along with copies of documents etc. annexed). n accordance with sub-section (4) of section 19 of the

Act, you, the defendants are directed as under :-(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) To disclose particulars of properties or assets

other than properties and assets specified by the

applicant under serial number 3A of the origina

application. (iii) You are restrained From dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or

otherwise, except in the ordinary course of his

business any of the assets over which security nterest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or

other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security nterest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant before Registrar on 28/11/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this date: 31/08/2023. Registrar I/c

DRT-II, Chandigarh

"IMPORTANT" copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

For Vedanta Limited

New Delhi

and Executive Director of the Company and payment of remuneration to him. In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the

Plot No. 2-B, Sector 126, Noida 201304, Uttar Pradesh

Members whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/

Physical Holding Members holding shares in physical mode are requested to register/update their email addresses by writing to MCS

Members holding shares in dematerialized mode are requested

धनराशि से बनने वाले ग्राम स्यूंसी देवकाण्डाई, बमराडी, कुणजोली,

होते हुये ग्राम आमकुलाऊ तक मोटर वयेडा, सिन्दूडी बडी, कमलिया,

कोटा,

वापता.

बन्दरकोट में बनने वाले पंचायत

चयनित ग्राम पंचायतों बंगार

तिमलाखोली, बंदरकोट, मंगरौ

डुमैला मल्ला, गुडिण्डा, रगडीगाड,

पंचायतों में 9.50 लाख की लागत

के कम्प्यूटर वितरण किया गया

इस अवसर पर वरिष्ठ युवा भाजपा

पंचायत सदस्य शांति देवी, पूर्व

मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी, ध्यान

पाल गुसाई, यशपाल गोरला,

पातीराम भारती, सत्येंद्र, राजे सिंह,

दीप्ति प्रकाश, संध्या देवी, नरेंद्र

एसडीएम, खंड विकास अधिकारी

सहित अनेक विभागीय अधिकारी

उपस्थित थे।

सयश रावत भाजपा

अध्यक्ष ओमपाल बिष्ट,

कदोला, सैंधार, लोदली

राज्य के विकास को प्रतिबद्ध होकर काम कर रही सरकार

विकासखण्ड बीरोंखाल को मिली 19 करोड़ 26 लाख की योजनाएं उत्तराखंड की तस्वीर बदलेंगी सरकार की विकास योजनाएं

चन्द्र यान और सूर्य यान मिशन की प्रधानमंत्री मोदी के नेतत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड की डबल

बीरोंखाल में आयोजित एक कार्यक्रम की लागत की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए

बीरोंखाल (पौड़ी)। प्रधानमंत्री कही। चौबट्टाखाल विधायक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में मंत्री महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र देश का सांस्कृतिक वैभव बढ़ रहा है। स्थित बीरोंखाल विकासखण्ड के 86.00, 87.00,93.00, 121.00 से अन्तर्गत 22.82 लाख की लागत से सफलता के साथ साथ देश में जी-20 बनी राजकीय इण्टर कालेज से 120.00, 124.00 से 130.00 में मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं के शानदार आयोजन से भारत का ग्वीनखाल तक मोटर मार्ग का नव चारों ओर यशोगान हो रहा है। निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-1), 10 लाख के बैजरों चोखाल मुख्य मोटर मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंजन सरकार राज्य के सर्वांगीण बैजरों की ओर डामरीकरण कार्य, विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर 32.10 लाख की मैठाणाघाट-उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण. सौंफखाल-दिवोली-बन्दरकोट-पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण नौलापुर मोटर मार्ग (प्रमुख जिला निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मार्ग पी० 22) के किमी० 1, 2 एवं मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक 10 में पीसी द्वारा नवीनीकरण के सतपाल महाराज ने शुक्रवार को क्षेत्र कार्य, 15.35 लाख की मैठाणाघाट-भ्रमण के तीसरे दिन ब्लाक मुख्यालय जाखणी-तकलसार-रसियामहादेव-सौफखाल-दिवोली के दौरान लोक निर्माण, सिंचाई, और नौलापुर मोटर मार्ग (प्रमुख जिला पंचायत विभाग की 1926.56 लाख मार्ग पी. 22) के किमी 11 में पीसी द्वारा नवीनीकरण के कार्य,

स्व. गीतराम पोखरियाल मोटर

माफिया से गठजोड़ के चलते फलफूल रहा अवैध शराब का कारोबार : कांग्रेस

उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरादत्त जोशी ने उत्तराखण्ड सरकार पर शराब हुए कहा कि शराब माफिया से सरकार की मिलीभगत के चलते प्रदेश में सरकार अपने दायित्वों की इतिश्री कर रही है। प्रदेश में बढती शराब तस्करी जोशी ने कहा कि प्रदेश में शराब सस्ती

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा नशे में डूबता जा रहा है। उन्हों देवभिम में शराब के प्रचलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य माफिया से गठजोड़ का आरोप लगाते की भाजपा सरकार की आबकारी नीति पूर्ण रूप से शराब माफिया को संरक्षण देने, शराब की तस्करी को बढ़ावा देने अवैध शराब का कारोबार फलफूल रहा तथा उत्तराखण्ड के गांवों में हर घर तक है। कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ शराब पहुंचाने वाली रही है। उन्होंने अधिकारियों के स्थानान्तरण कर कहा कि एक ओर भाजपा सरकार आम जरूरत की चीजों रसोई गैस सिलेण्डर, खाद्यय पदार्थों की कीमतों पर बयान जारी करते हुए मथुरादत्त में भारी वृद्धि कर आम जनता का शोशण कर रही है,वहीं शराब को करने के सरकार के फैसले से जहां बढ़ावा देकर देवभूमि उत्तराखण्ड को शराब का चलन बढ़ रहा है वहीं अवैध शराब प्रदेश बनाकर लोगों के स्वास्थ्य शराब के बढते कारोबार से प्रदेश का से भी खिलवाड़ करना चाहती है।

🔰 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड

न कायालय: ५-1, इडास्ट्रबल प्राच्या, बाजपुर राज, प्रासापुर-दन्म 115, ाञ्चला ठवा राज्य राज्य दूरमाष: +91 5947 269000/269500; फैक्स: +91 5947 275315/269535 इ-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com; वेबसाइट: www.indiaglycols.com सीआईएन: L24111UR1983PLC009097

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108, 110 (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 22/2020 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 3/2022, 11/2022 एवं 9/2023 क्रमशः दिनां 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020 23 जन 2021 8 ਫਿਲਾਜ਼ਕ 2021 5 ਸੁੜ੍ਹੇ 2022 28 ਫਿਲਾਜ਼ਕ 2022 एवं 25 सितम्बर 2023 ''एम सी ए परिपत्र'') (वर्तमान में लागू उस पर कोई भी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन औ समय-समय पर संशोधन सहित) के अनुपालन में कंपनी के निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री आलोक सिंघल (डी आई एन: 10359043) की नियक्ति और उन्हें पारिश्रमिक के भगतान के लि डाक मतपत्र द्वारा सामान्य संकल्प के माध्यम से इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की स्वीकृति केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम सें मांगी जा रही है।

एम सी ए परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी ने व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र सुचना (दिनांक 3 नवम्बर, 2023 उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने का कार्य **24 नवम्ब**र 2023 को पूरा कर लिया है जिनके नाम शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023 (''कट-ऑफ तिथि'') क सदस्यों के रजिस्टर/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एन एस डी एल'')/सेन्ट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सी डी एस एल'') (''यहां के बाद डिपॉजिटरीज के रूप में संदर्भित'') प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं और जिन्होंने अपना ई–मेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार ए . शेयर टांसफर एजेंट (''आर टी ए'') या अपने डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत कराया है। **उपरोक्त कथित एम सी ए परिपत्रों** में वर्णित आवश्यकताओं के संदर्भ में कंपनी ने सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी है। सूचना की हाड कापी के साथ डाक मतपत्र फार्म और पूर्व-भुग्तेय व्यवसाय उत्तर लिफाफा को इस डाक मतपत्र के साथ सदस्यों को नहीं भेजा है। सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.indiaglycols.com</u> पर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एन एस डी एल'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> और स्टॉक एक्सचेंजॉ, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण जिन्हें सूचना प्राप्त नहीं होती है, वे इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कम्पनी सचिव को ई-मेल compliance.officer@indiaglycols.com पर लिख सकते हैं।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों के साथ पठित लागू नियमों और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय के संबंध में अपना वोट देने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है और इस प्रयोजन के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग को सुगम बनाने हेतु एन एस डी एल को नियुक्त किय है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 26 नवम्बर, 2023 को प्रात: 9.00 बजे (आई एस टी) प्रारंभ होगी: (ख) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 25 दिसम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आई एस टी) समाप्त होगी; (ग) रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के अधिकार की गणन हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023 है; (घ) सोमवार, 25 दिसम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आई एस टी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उसके बाद एन एस डी एल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉइयूल हटा लिया जाएगा; (ङ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियो की सूची में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे; (च) रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया सहित भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिय सूचना में दी गई है; और (छ) किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com वे 'डाउनलोड' सैक्शन पर सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या फोन नं. 022 – 4886 7000 एवं 022 – 2499 7000 पर कॉल क सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एन एस डी एल को पदनामित ई–मेल: evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं । सदस्यगण ई—मेल आईडी <u>compliance.officer@indiaglycols.com</u> पर कम्पर्न सचिव को भी मेल भेज सकते हैं या मुख्य कार्यालय प्लॉट नं. 2-बी, सैक्टर-126, नोएडा-201304

उत्तर प्रदेश को लिख सकते हैं। सदस्यगण जिन्होंने कम्पनी/आर टी ए/डिपॉजिटरीज के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया

भौतिक धारिता	भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदस्य का नाम, फोलियों नम्बर एवं सदस्य का पता, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
	और शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कॉपी के साथ लिखित अनुरोध एम सी एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमेटेड (''आर टी ए''), एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 या उनके ई–मेल: admin@mcsregistrars.com के माध्यम से भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

करके तथा अपना फोलियो नं. के स्थान पर 16 अंकों का डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी के साथ क्लाइंट मास्टर कॉपी या समेकित डिमेट खाता विवरण उपलब्ध कराते हुए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे भौतिक धारिता के अधीन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन

ई–मेल पतो के स्थायी पंजीकरण के लिए भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण निर्धारित प्रपत्रो में अपने विवरण आर टी ए के पास प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगप अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–१/पी/सीआईआर/ 2023/70 दिनांक 17 मई, 2023 के साथ पठित सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/ सीआईआर/2023/158 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभतियों के धारकों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 तक या उससे पूर्व पैन, के वाई सी विवरण एवं नामांकन के पंजीकरण का अधिदेश दिया है। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, के वाई सी विवरण एवं नामांकन विवरण को निर्धारित फार्म में आर टी ए. एफ–65. प्रथम तल. ओखला इंडस्टियल एरिया. फेज–1 नई दिल्ली-110020 के पास या ई-मेल: admin@mcsregistrars.com पर भेजें। अपेक्षित फार्म कंपनी की वेबसाइट www.indiaglycols.com पर निवेशक संबंध खंड के तहत उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डियॉजिटरी प्रतिभागी, जहां आपका डिमेट खाता है, उसके पास अपना के वाई सी विवरण/बैंक अनिवार्यता या नामांकन विवरण में किसी भी परिवर्तन/अपडेशन को सत्यापित एवं अपडेट कराएं।

कम्पनी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए आशीष सक्सेना एंड कं., कम्पनी सचिव, गाजियाबाद के श्री आशीष सक्सेना (सी.पी. नं. 7096) को जांचकर्ता के रूप में नियक्त किया है।

डाक मतपत्र के माध्यम से आयोजित वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया) का परिणाम रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के दो कार्यदिवस के भीतर घोषित किया जाएगा। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कथित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट <u>www.indiaglycols.com</u> पर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ''एन एस डी एल'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> और स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इस डाक मतपत्र सूचना में सदस्यों द्वारा पारित संकल्प को तब पारित मान लिया जाएगा यदि सदस्यों की आम बैठक में इसे पारित कर दिया गया हो। प्रस्ताव यदि सदस्यों के अपेक्षित बह्मत से पारित हो जाता है तो इसे रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि को पारित मान लिया जाएगा।

कृते इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड हस्ता./



पोखडा-सतपुली मोटर राज्य

किमी 79.00 ये 122.00 में पीसी एवं किमी 116. 00 एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण कार्य, 76.77 लाख की धनराशि की तक लसारी-र सियामहादेव-सौंफखाल-दि वोली- बन्दरकोट -नौलापर मोटर मार्ग के किमी 15 से 19 में पीसी द्वारा नवीनीकरण कार्य (मख्य जिला मार्ग) के साथ-साथ 30 लाख की लागत से बने ग्राम पंचायत डुमैला मल्ला, सुकई कोलरी में पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री महाराज ने 34.77 लाख की लागत की ग्राम रगड़ीगाड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-1), 30.35 लाख की भरोली से मैठाना मोटर मार्ग के मरम्मत का कार्य, 73.60 लाख की लागत के

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम उप जिलाधिकारी काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। राजस्व वाद संख्या- 22/14

वर्ष 2022-23

सम्मन

वादीगण- 1. श्री बलदेव सिंह सहोता बालिग पुत्र स्व. रतन सिंह सहोता, 2.श्री हरजोत सिंह सहोता, 3. श्री एकमजोत सिंह सहोता बालिव पुत्रगण इकबाल सिंह सहोता द्वार मुख्तारेआम इकबाल सिंह सहोता पुत्र रतन सिंह निवासीगण ग्राम जैतपुर घोसी, तहसील काशीपुर, जिला

प्रतिवादीगण-1- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय उधमसिंहनगर ।

2- गाँव सभा जैतपुरघोसी, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। धारा-229

उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि. 1950) अनुकूलन उपान्तरण अधिनियम 2001

हरगाह आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी ने एक वात सहोता' उद्धरण खतौनी में अंकित कराने हेतु इस न्यायालय में धार धारा-229 बी उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम 2001 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि किसी को कोई आपत्ति हेत् दिनांक नियत है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो नियत तिथि दिनाँव 04-12-2023 को न्यायालय में अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जवाबदावा प्रस्तुत करें, अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर वाद का निस्तारण कर दिय

यह सम्मन आज दिनाँक 27-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के जारी किया गया।

आज्ञा से- न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

मार्ग के नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-1), 237.17 लाख की लागत के कोलरी से तलाई मोटर मार्ग सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य, 139.36 लाख से होने वाले जामरी-तलाई-खटलगढ़-महादेव डामरीकरण के कार्य, 11 लाख की धनराशि से स्यूंसी आमकुलाऊं मोटर मै ठाणाघाट - ढौर - जाखणी - मार्ग के सुधारीकरण कार्य, 133.17 लाख से बीरोंखाल से डुमैला तल्ला-भमरईखाल-पखोली- दुनाव मोटर मार्ग के मरम्मत कार्य, 72.31 लाख से होने वाले मैठाणा से घनस्याली मोटर मार्ग के मरम्मत कार्य, 64,23 लाख की धनराशि से नार्बाड वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बीरोंखाल के ग्राम सीली मल्ली में चैक डैम निर्माण कार्य, 135.58 लाख की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कलस्टर धोबीघाट एवं सेरा में सामुहिक सिंचाई योजनाओं, 77.08 लाख की ग्राम डांगू तल्ला में लिफ्ट सिंचाई योजना और 150

की मरम्मत कार्य, 73.40 लाख की

सम्मन

लाख की लागत से निर्मित होने

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम उप जिलाधिकारी श्रेणी/ काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। राजस्व वाद संख्या- 22/13 वर्ष 2022-23

वादीगण- 1. श्री इकबाल सिंह सहोता 2. श्री बलदेव सिंह सहोता बालिग पुत्र स्व. रतन सिंह सहोत निवासीगण ग्राम जैतपुर घोसी काशीपुर, उधमसिंहनगर।

प्रतिवादीगण -1- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदर

2- गाँव सभा पट्टीभज्जर द्वारा सभापति गाँव सभा पट्टीभज्जर उधमसिंहनगर ।

धारा-229 उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भृ.सुधार अधि. 1950) अनुकूलन उपान्तरण अधिनियम 2001

हरगाह आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी ने एक वाद अपने नाम के पीछे अपना सरनेम 'सहोता' उद्धरण खतौनी में अंकित कराने हेतु इस न्यायालय में धारा धारा-229 बी उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम 2001 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि किसी को कोई आपत्ति हेतु दिनांक नियत है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो नियत तिथि दिनाँक 04-12-2023 को न्यायालय में अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जवाबदावा प्रस्तुत करें, अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर वाद का निस्तारण कर दिया

यह सम्मन आज दिनाँक 27-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के जारी किया गया। आजा से- न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी, काशीपुर, जिला

सम्मन

ऱ्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी काशीपर, जिला उधमसिंहनगर। वाद संख्या- 22/09 वर्ष 2022-23 वादीगण- 1. श्री इकबाल सिंह सहोता 2. श्री बलदेव सिंह सहोता बालिग पुत्र स्व. रतन सिंह सहोता निवासीगण ग्राम जैतपुर घोसी, तहसील काशीपुर,

उधमसिंहनगर।

प्रतिवादीगण -1- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय उधमसिंहनगर ।

2- गाँव सभा जैतपुरघोसी द्वारा सभापति गाँव सभा जैतपुरघोसी काशीपुर, तहसील उधमसिंहनगर।

अन्तर्गत धारा-229 उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि. 1950) अनुकूलन उपान्तरण अधिनियम 2001

हरगाह आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी ने एक वाद अपने नाम के पीछे अपना सरनेम सहोता' उद्धरण खतौनी में अंकित कराने हेतु इस न्यायालय में धारा धारा-229 बी उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम 2001 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि किसी को कोई आपत्ति हेतु दिनांक नियत है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो नियत तिथि दिनाँक 04-12-2023 को न्यायालय में अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जवाबदावा प्रस्तुत करें, अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर वाद का निस्तारण कर दिया

यह सम्मन आज दिनाँक 27-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के जारी किया गया।

आज्ञा से- न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी, काशीपुर, जिला उधमसिंह नग

आखिरकार आज अपने परिवार से उसने खुलासा किया कि उसका नाम अरशद है।उसके भाई का नाम

राजकीय शिशु निकेतन में रह रहा था,

समीर है और उसकी बहन का नाम सोफिया है। उसने बताया कि उसके पिता नहीं हैं और उसके दादा का नाम अनीश है और वह शादियों में खाना बनाने का काम करते थे। उसने यह भी बताया कि वह इसी शहर में कही का रहने वाला और उनका एक घर नाले के किनारे है। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद, जिलाधिकारी के निर्देशों के

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकार्र काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। राजस्व वाद संख्या- 22/10 वर्ष 2022-23

वादी- श्री हरजोत सिंह सहोत बालिक पुत्र इकबाल सिंह सहोत द्वारा मुख्तारेआम इकबाल सिंह सहोता पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम जैतपुर घोसी, तहसील काशीपुर, जिला

प्रतिवादीगण -1- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय उधमसिंहनगर ।

2- गाँव सभा जैतपुरघोसी, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।

अन्तर्गत धारा-229 उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन उपान्तरण अधिनियम 2001

हरगाह आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी ने एक वाट अपने नाम के पीछे अपना सरनेम सहोता' उद्धरण खतौनी में अंकित कराने हेतु इस न्यायालय में धारा धारा-229 बी उत्तराखण्ड (उ.प<u>्र</u> ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम 2001 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि किसी को कोई आपत्ति हेतु दिनांक नियत है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो नियत तिथि दिनाँक 04-12-2023 को न्यायालय में अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जवाबदावा प्रस्तुत करें अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर वाद का निस्तारण कर दिया

यह सम्मन आज दिनाँक 27-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के जारी किया गया। आजा से- न्यायालय सहायक

कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर



ऋम में अखबार की विज्ञप्ति के अगले ही दिन 24 नवंबर को पता माध्यम से साझा किया गया, बालक साबित हुआ। 23 नवंबर को स्थिति अली के पास पहुंचा और व्हाट्सएप बदल गई। जिलाधिकारी के निर्देशों पर प्रसारित जानकारी के माध्यम से के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती मीना बिष्ट ने बच्चों के अधिकारों के कार्य करने वाली स्थानीय वकील रिजवान अली से सहायता मांगी। रिजवान अली एडवोकेट एडवोकेट लतिका संस्था के साथ मिलकर दिव्यांग बच्चो के अधिकारों के लिए काम करते है उन्होंने तेजी से अपना नेटवर्क तैयार किया और गैर सरकारी संगठनों, विस्तृत श्रृंखला में बालक के विवरण और फोटो का प्रसार वाट्सएप्प के माध्यम से किया। इसके परिणामस्वरूप अरशद के परिवार को

छह माह बाद 5 वर्षीय बालक

का परिवार के साथ पुनर्मिलन

चल गया। 24 नवंबर, 2023 को के परिवार का पता लगाना चुनौतीपूर्ण बालक का परिवार एडवोकेट रिजवान अरशद की पहचान की पुष्टि की। इस सफलता से बालक और उसके परिवार के बीच एक दिल छू लेने वाला पुनर्मिलन हुआ, जो बालक के दस्तावेजों सावधानीपूर्वक सत्यापन प्रक्रिया के बाद बाल (सीडब्ल्युसी) व जिला देहरादून के समक्ष आयोजित कर बालक को परिवार जनों के सुपुदे कानुनी विशेषज्ञों और सामाजिक किया गया। अरशद और उनके कार्यकर्ताओं सहित संपर्कों की एक परिवार के बीच का आनंदमय पुनर्मिलन सहयोगात्मक प्रयासों और दुढ़ संकल्प का एक प्रमाण है, जो परिवारजनों व इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए अपार खुशी लेकर आया है।

सम्मन न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम

श्रेणी/ उप जिलाधिकारी काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। राजस्व वाद संख्या- 22/11 वर्ष 2022-23

वादिनी- 1. श्रीमती हरदीप कौर सहोता पत्नी इकबाल सिंह सहोता पुत्री गुरनाम सिंह निवासी ग्राम जैतपुर बोसी, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।

सम्मन

प्रतिवादीगण -1- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय उधमसिंहनगर ।

2- गाँव सभा जैतपुरघोसी द्वारा सभापति गाँव सभा जैतपुरघोसी, तहसील उधमसिंहनगर ।

अन्तर्गत धारा-229 उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन उपान्तरण अधिनियम 2001

हरगाह आम व खास को सचित किया जाता है कि वादी ने एक वाद अपने नाम के पीछे अपना सरनेम सहोता' उद्धरण खतौनी में अंकित कराने हेतु इस न्यायालय में धारा धारा-229 बी उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम 2001 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि किसी को कोई आपत्ति हेत दिनांक नियत है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो नियत तिथि दिनाँक 04-12-2023 को न्यायालय में अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जवाबदावा प्रस्तुत करें, अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर वाद का निस्तारण कर दिया जायेगा।

यह सम्मन आज दिनाँक 27-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के जारी किया गया। आज्ञा से- न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम

श्रेणी/ उप जिलाधिकारी काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। राजस्व वाद संख्या- 22/12 वर्ष 2022-23

वादी- 1. श्री एकमजोत सिंह सहोत बालिग पुत्र इकबाल सिंह सहोता द्वार मुख्तारेआम इकबाल सिंह सहोता पुः रतन सिंह निवासी ग्राम जैतपुर घोसी काशीपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण -1- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदर उधमसिंहनगर। 2- गाँव सभा जैतपुरघोसी, तहसीत

काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर। अन्तर्गत धारा-229

उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन उपान्तरण अधिनियम 2001 हरगाह आम व खास को सचित किया जाता है कि वादी ने एक वात

अपने नाम के पीछे अपना सरनेम 'सहोता' उद्धरण खतौनी में अंकित कराने हेतु इस न्यायालय में धार धारा-229 बी उत्तराखण्ड (उ.प्र. ज.वि.एवं भू.सुधार अधि.1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम 2001 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमे यदि किसी को कोई आपत्ति हेत दिनांक नियत है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो नियत तिथि दिनाँक 04-12-2023 को न्यायालय मे अपराह्न 1.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जवाबदावा प्रस्तुत करें, अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर वाद का निस्तारण कर दिया जायेगा।

यह सम्मन आज दिनाँब 27-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के जारी किया गया। आज्ञा से- न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

कार्यालय अधीक्षण अभियुन्ता द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि. नैनीताल Phone.Fax 05942-235728/232030

उधमसिंह नगर

पत्रांक: 4220/41 एम.-/22-23

Email: sepwdntl@redifffmail.com

दिनांक 21-11-2023

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक ई-निविदा (e-Tendering)

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि. नैनीताल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग द्वारा (डबल बिड सिस्टम) के अंतर्गत आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित सभी सूचना http://www.uktenders.gov.in पर दिनांक 30-11-2023 से उपलब्ध होगी।

क्र. सं.		धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की वैधता (दिवस)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में)	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
सङ	इक सुरक्षा के अन्तर्गत मार्गों में क्रेश बैरियर आपू	र्ति एवं लगाने व	ना कार्य			
	निर्माण खण्ड नैनीताल		5000.00	120 दिन	06 माह	राज्य सरकार
1.	भुजान बेतालघाट मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग)	14.80	+18%			के लोक निर्माण
			GST			विभाग में मार्ग
2.	बेतालघाट भतरौज्खान तौराड़ मोटर मार्ग	9.87	5000.00	120 दिन	06 माह	कार्य हेतु
	(मुख्य जिला मार्ग)		+18%			पंजीकृत श्रेणी
			GST			'ए' एवं उच्चतर
प्रा	न्तीय खण्ड नैनीताल					एवं उत्तराखण्ड
1.	(अ) भवाली नैनीताल टांकी किलवरी पंगोट	6.60	5000.00	120 दिन	०६ माह	लोक निर्माण में
	मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 63) (ब) अमृतपुर		+18%			विभाग में मार्ग में
	बानना बिबयाड़ मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्गे		GST			पंजीकृत एवं प्रमुख
	12) (द) नैनीताल कालाढूंगी बाजपुर दोराहा					अभियन्ता लोक
	मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 13)					नि.वि. देहरादून
2.	काठगोदाम हैडाखान सिमलिया बैण्ड साननी	11.00	5000.00	120 दिन	०६ माह	के पत्रांक ई फाईल
	बैण्ड मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 103)		+18%			संख्या 29683
			GST			दिनांक 24.8.2023
						के अनुसार एवं
3.	नैनीताल शहर के अन्तर्गत 07 इण्टर सेक्ष्न	11.00	5000.00	120 दिन	06 माह	Road work
	(तल्लीताल चौराहा, मल्लीताल रिक्शा स्टैण्ड		+18%			Traffic signage
	चौराहा, एस.बी.आई. मल्लीताल तिराहा, मस्जिद		GST			Marking and
	तिराहा, चीना बाबा चौराहा, मनुमहारानी हाईकोर्ट					other appurtenances
100	तिराहा)					में पात्रता रखने
अ	स्थाई खण्ड भवाली					वाले ठेकेदार
1.	रानीबाग भीमताल खुटानी पंचेश्वर मोटर मार्ग	4.40	5000.00	120 दिन	06 माह	
	(राज्य मार्ग संख्या 10) किमी 1 से 20		+18%			
			GST			

📆 🕄 🕲 🕲 💇 राशिफल

शनिवार 25 नवम्बर, 2023

मेष : मन वैचारिक धरातल पर मानसिक व्यग्रता का अनुभव करेगा अधिक संवेदशीलता और भावना से आपका मन आर्द्रता का अनभव करेगा।

वृषभ: आर्थिक आयोजन प्रारंभ में कुछ अड्चन के साथ पूर्ण होते हुए लगेंगे। मित्रों-शुभेच्छकों के मिलन से आपको आनंद होगा। मिथुन : दिन का प्रारंभ शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के साथ होगा। परिवारजन और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय

कर्क: धन की आय कम और व्यय अधिक होगा। आंखो के दर्द से व्यग्रता होगी। मानसिक चिंता भी रहेगी। वाणी पर ध्यान रखें

सिंह: मन में क्रोध और आवेश की भावना रहने से आप लोगों के साथ व्यवहार संभलकर करें। आरोग्य के लिए दिन शुभ नहीं है।

कन्या : प्रात:काल आनंदप्रद और लाभप्रद रहेगा। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी।

तुला : शारीरिक और मानसिक सुख अच्छा रहेगा। व्यवसाय या व्यापार में आप उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे। पदोन्नति का योग है।

वृश्चिक : विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद-विवाद में न पडें व्यवसाय या व्यापार में परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी। संतानों के साथ मतभेद की संभावना है।

धनु: सावधानी बरतने की जरूरत है। क्रोध करने से हानि होने की संभावना है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से आप व्यग्र

मकर : स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का और खान-पान का प्रसंग होगा। वाहन-सुख मिलेगा तथा मान-सन्तान भी मिलेगा।

कुंभ : कार्य-फलता और यश-कीर्ति मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामाजिक रूप से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि

मीन : दिन अच्छी तरह से बीतेगा। कला के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। मित्रों से हुई भेंट से आनंद होगा। विद्यार्थीयों के लिए . अच्छा समय है।

संस्थापकः स्व.जी.एस.भण्डारी

जी.एस.भण्डारी एण्ड को. के लिए प्रकाशक मुद्रक डा.उषा किरन भण्डारी द्वारा उत्तर उजाला प्रेस, उजाला नगर बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित व भण्डारी भवन, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

मुख्य सम्पादक : डा. उषा किरन भण्डारी फोन: हल्द्वानी 05946-252975, पंजी.सं. आर.एन.32942/77 E-mail: uttarujala7@gmail.com website: www.uttarujala.com

स्थान : नोएडा, उ. प्र. दिनांक : 24-11-2023

डिमैट धारिता

अंकुर जैन कम्पनी सचिव